



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 27, बुधवार, शके 1941-सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941-September 18, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 4, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8563 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Kotputli has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Kotputli. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government

कार्यालय नगरपालिका मण्डल कोटपूतली (जयपुर)

प्रोफार्मा क

| क्र. सं. | व्लाक सं. जनगणना 2011 | प्रस्तावित वार्ड सं. | प्रस्तावित वार्ड सीमा का विवरण | प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या 2011 |
|----------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | एन.एच 08 पर रेगर के मकान बाए तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा चलकर बासडी की सीमा तक (भोलाराम का भट्टा) पहुचकर वहां से पश्चिम दिशा मुडकर नगर पालिका सीमा को शामिल करते हुए खेडकी रोड पहुचकर भूरा मुनीम की धर्मशाला को शामिल करते हुए पूर्व दिशा में मुडकर एनएच 08 पर रेगर के मकान तक की समस्त आबादी | 1140 |
| 2 | 2 | 2 | प्रभु भैया के मकान ढाणी बच्चावाली को छोडकर उत्तर दिशा काल्पनिक रेखा के सहारे सहारे चलकर बोदूराम सैनी के मकान को बायी तरफ शामिल कर फौजावाली शिव | 1139 |

| | | | | |
|---|---|---|--|------|
| | | | मंदिर को बाए तरफ शामिल कर हीरा लाल को दाए तरफ छोडकर बाए तरफ उत्तर मुडकर हरीहर आश्रम को दाए तरफ छोडकर डोईयो की ढाणी को शामिल कर गोपालपुरा रोड पहुचकर सीधे पश्चिम चल कर नगर पालिका सीमा से सीधे चल कर ढाणी इनायत वाली को शामिल कर रास्ता आडी लीक दक्षिण दिशा चलकर चान चक्की रोड पहुचकर बाए तरफ मुडकर पूर्व दिशा की बाए तरफ की समस्त आबादी को सम्मलित करते हुए प्रभु भैया के मकान पर सीमा समाप्त। | |
| 3 | 3 | 3 | प्रभु भैया के मकान ढाणी बच्चावाली को शामिल करते हुए रामानन्द पत्रकार को शामिल कर शिव मंदिर फोजावाली को बाए तरफ छोडकर हीरालाल सैनी के मकान हरीहर आश्रम को दाए तरफ शामिल कर बाए तरफ पूर्व दिशा मुडकर उदावाला शिव मंदिर स्कूल को शामिल कर डोईयो को ढाणी को छोडकर गोपालपुरा रोड पहुचकर बीरबल का भट्टा के मध्य रास्ते से चलकर खेडकी रोड पहुचकर पूर्व दिशा चल कर ट्रांसपोर्ट नगर को शामिल कर बाए तरफ दक्षिण चलकर दीवान होटल को शामिल कर बाए तरफ पश्चिम मुडकर बीरबल धर्मशाला को शामिल कर अमरपुरा हांडसिंग वोर्ड रोड पर चलकर कीरो की ढाणी को शामिल करते हुए इटली के जोहड की सीमा के सहारे सहारे चलकर राम बिहार परी बिहार को छोडकर मुख्य नाला फौजावाली रोड चलकर बाए तरफ पश्चिम चलकर प्रभु भैया के मकान की दाए तरफ की समस्त आबादी। | 1166 |
| 4 | 4 | 4 | बबेरवाल मेरीज गार्डन से पूर्वी दक्षिणी कोने से बाए तरफ उत्तर दिशा चल कर भैरूराम सैनी मास्टर संस्कृत स्कूल को दाए तरफ छोडकर पेंटर सुधीर भारद्वाज के मकान को बाए तरफ शामिल करते हुए इन्द्रराज सैनी किराना वाले की दुकान पर पहुचकर यहां से अमरपुरा रोड (हांडसिंग बोर्ड) वाले रास्ते पर चलते हुए कीरो की ढाणी पहुचकर (कीरो की ढाणी को छोडकर) रामबिहार कालौनी (ढाणी हंसावाली) को बाए तरफ की आबादी को शामिल करते हुए इटली की जोहड सीमा पर चलते हुए परीबिहार कालौनी को बाए तरफ शामिल कर बाए तरफ दक्षिण दिशा में मुडकर गन्दे नाले के सहारे सहारे चलते फौजावाली रोड पहुचकर बाए तरफ पूर्व दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए बाए तरफ की समस्त आबादी को सम्मलित करते हुए | 1131 |

| | | | | |
|---|---|---|--|------|
| | | | वापस ववेरवाल मेरीज गार्डन तक | |
| 5 | 5 | 5 | संस्कृत स्कूल के पश्चिमी दक्षिणी कोने से बाए तरफ पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए गोकुल सेठ की आयल मिल एन एच 08 बाए तरफ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए गोपालपुरा रोड पर पहुंचकर बाए तरफ पश्चिम मुड़कर सीधे चलते हुए बीरबल की धर्मशाला को दाए तरफ छोड़ते हुए सीधे चलते हुए धर्मपाल सैनी की गली इन्द्रराज सैनी किराना की दुकान का छोड़कर की बाए तरफ दक्षिण मुड़कर सीधे सीधे चलते हुए भैरू मास्टर के मकान व संस्कृत स्कूल की बाए तरफ की समस्त आबादी सम्मलित कर वापस संस्कृत स्कूल के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक सीमा समाप्त। | 1125 |
| 6 | 6 | 6 | बदलू चैधरी से फौजावाली रोड पश्चिम की तरफ सराधना के मकान को सम्मलित करते हुए दक्षिण दिशा में चित्रकूट कालोनी को छोड़ते हुए ढाणी धोली कोठी को सम्मलित कर ढाणी अंधावाली को दाए तरफ छोड़ते हुए पूर्व दिशा की तरफ बाएं तरफ की समस्त आबादी को सम्मलित करते हुए ढाणी दीपा वाली को छोड़ते हुए काल्पनिक रेखा के सहारे चलते हुए ढाणी जादा वाली को सम्मलित करते हुए पूर्व दिशा की तरफ चलकर हरजी वाला कुआं व गाडाराम के मकान को छोड़ते हुए बाए तरफ उत्तर दिशा में चलकर बाएं तरफ की आबादी को सम्मलित करते हुए बदलू चैधरी के मकान की समस्त आबादी। | 1204 |
| 7 | 7 | 7 | सराधना के मकान से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए चित्रकूट कालोनी को दाए तरफ छोड़ते हुए धोली कोठी को बाए तरफ छोड़ते हुए रमेश किताव वाले के डंडे के पास पहुंचकर अन्धावाली ढाणी को दाए छोड़ते हुए टेलीफोन एक्सचेंज रोड से बाए तरफ पूर्व दिशा में मुड़कर सीधे सीधे चलते हुए वैरागी कम्पाउंडर के मकान के पास पहुंचकर बाए तरफ उत्तर दिशा में मुड़कर काल्पनिक रेखा के सहारे सहारे चलकर मकान रामचन्द्र मीणा तहसीलदार को दाए तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ पूर्व दिशा में मुड़कर सीधे सीधे चलते हुए पटेल कौलोनी के रास्ते चलते हुए रामेश्वर यादव के मकान को बाए तरफ शामिल करते हुए। बाबूलाल शर्मा के मकान को दाए तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ उत्तर दिशा चलते हुए मकान गोपीराम मुनीम को | 1120 |

| | | | | |
|----|----|----|---|------|
| | | | बाए हाथ शामिल कर बाए तरफ पश्चिम मुडकर सीधे सीधे चलकर हरजी वाला कुआ पहुचकर काल्पनिक रेखा के सहारे सहारे जादावाली धोली कोठी दाए तरफ छोडते हुए बाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल कर फौजावाली रोड सराधना के मकान तक | |
| 8 | 8 | 8 | सराधना के मकान से चित्रकुट कालोनी व फौजावाली स्कूल को बाए तरफ सम्मलित करते हुए चानचक्की रोड की तरफ नगरपालिका सीमा पहुचकर बाए तरफ दक्षिण दिशा में नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे बाएं तरफ की समस्त आबादी को सम्मलित कर (ढाणी गोदावाली) रामेश्वर सैनी कालोनी टेलीफोन एक्सचेंज रोड पहुचकर बाए तरफ पूर्व दिशा की तरफ ढाणी बागवाली ढाणी अन्धावाली को सम्मलित कर रमेश किताव वाले के डण्डे को दाए तरफ छोडते हुए उत्तर दिशा चलकर धोली कोठी व सराधना के मकान को दाएं तरफ छोडते हुए बाएं तरफ की समस्त आबादी को सम्मलित करते हुए वापस सराधना के मकान तक की समस्त आबादी। | 1126 |
| 9 | 9 | 9 | कृपा का तिवारा शिवालय से बाए तरफ उत्तर नगर पालिका सीमा (आडी लीक) के सहारे सहारे चलते हुए टेलीफोन एक्सचेंज रोड पहुचकर बाए तरफ पूर्व दिशा मुडकर सीधे सीधे चलकर यादव मास्टर (छाजा का नांगल वाले) के मकान को बाए तरफ छोडकर दक्षिण दिशा में सीधे सीधे चलते हुए ढाणी कैराला को शामिल करते हुए आगे चल कर सकडे रास्ते से दाए तरफ की आबादी को शामिल करते हुए सीधे डावला रोड पहुचकर रूपनगर वाले रास्ते पर चलते हुए सीमा बूचाहेडा पर पहुचकर बाए तरफ पश्चिम मुडकर नगर पालिका सीमा के सहारे सहारे चलते हुए सुन्दरपुरा रोड पर पहुचकर दाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल कर उत्तर दिशा में चलते हुए कृपा का तिवारा शिवालय पर पहुचकर दाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल कर सीमा समाप्त। | 1150 |
| 10 | 10 | 10 | रामचन्द्र प्रधान की कोठी से बाए तरफ उत्तर दिशा में चलते हुए बजरंग मित्तल को शामिल कर बाए तरफ पश्चिम मुड कर फूलचन्द सैनी व केदार पाटन वाले के मकान को शामिल करते हुए सकडे रास्ते पर चलते हुए शिम्भू सैनी के मकान को दाए तरफ छोडकर बाए तरफ उत्तर दिशा में मुडकर जीणमाता मंदिर को शामिल करते | 1169 |

| | | | | |
|----|----|----|--|------|
| | | | हुए पश्चिम दिशा में मुड़कर सीधे चलकर ख्याली सैनी के मकान को दाए तरफ छोड़ते हुए उत्तर दिशा रास्ते चलकर टेलीफोन एक्सचेंज रोड पहुंचकर कैलास सैनी (चाय वाला) के मकान को बाए तरफ शामिल कर बाए तरफ पॉपम मुड़कर सीधे सीधे सड़क चलकर यादव मास्टर (छाजा का नागल वाले) के मकान को बाए तरफ शामिल कर बाए तरफ दक्षिण मुड़कर ढाणी कैराला को दाए तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल कर डावला रोड पहुंचकर बाए तरफ पूर्व दिशा में मुड़कर डावला रोड चलते हुए बाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए रामचन्द्र प्रधान की कोठी तक समस्त क्षेत्र। | |
| 11 | 11 | 11 | हीरालाल चाय वाले की दुकान से बाए तरफ पश्चिम की तरफ डावला रोड पर सीधे सीधे चलकर रतीराम यादव वकील की दुकान पहुंचकर बाए तरफ उत्तर मुड़कर सीधे सीधे चलते हुए यादराम यादव की दुकान को दाए तरफ की शामिल कर बाए तरफ पश्चिम मुड़कर सीधे सीधे चलते हुए रमाकान्त शर्मा के मकान को दाए तरफ शामिल कर बाए तरफ उत्तर मुड़कर रघुवीर सैनी के मकान को दाए तरफ शामिल करते हुए सकडे रास्ते चलकर शिम्भू सैनी के मकान को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा चलकर ख्याली राम सैनी के मकान को दाए तरफ शामिल कर बाए तरफ उत्तर दिशा मुड़कर लालाराम सैनी पान वाले को दाए तरफ शामिल कर टेलीफोन एक्सचेंज के रास्ते पर पहुंच कर बाए तरफ पूर्व दिशा में मुड़कर सीधे सड़क पर चलते हुए बडा महादेव एनएच 08 बाए तरफ दक्षिण मुड़कर दाए तरफ की आबादी को शामिल करते हुए हीरालाल चाय वाले की दुकान तक समस्त आबादी क्षेत्र। | 1287 |
| 12 | 12 | 12 | सागरमल की दुकान से पश्चिम दिशा में फौजावाली सड़क पर चलते हुए बहादुर सैनी के मकान को बाए तरफ सम्मिलित करते हुए बाए तरफ दक्षिण मुड़कर बाए तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुए गाडाराम के मकान को बाए तरफ सम्मिलित कर बाए तरफ पश्चिम दिशा मुड़कर सीधे सीधे चलकर हरजी वाला कुआ को बाए तरफ शामिल कर ढाणी धोली कोठी को दाए तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ दक्षिण दिशा की तरफ सीधे काल्पनिक रेखा के सहारे सहारे चलते हुए ढाणी अन्धावाली को दाए तरफ छोड़ते हुए टेलीफोन एक्सचेंज रोड पहुंचकर बाए तरफ पूर्व | 1210 |

| | | | | |
|----|----|----|---|------|
| | | | दिशा में मुडकर सीधे सीधे चलते हुए बाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए एन एच 08 पर क्रय विक्रय को बाए तरफ शामिल करते हुए बाए तरफ उत्तर दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए बाए तरफ वापस सागरमल की दुकान तक | |
| 13 | 13 | 13 | बीडीएम चिकित्सालय की उत्तरी पूर्वी दिशा की दीवार के सहारे सहारे पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए काशिपुरम रोड पर पहुंच कर सीधे चलकर भगतो की ढाणी को बाए तरफ छोड़ते हुए दाए तरफ की आबादी को शामिल कर बाए तरफ दक्षिण मुडकर रूपचन्द का वाग को बाए तरफ छोड़ते हुए दाए तरफ की आबादी को शामिल कर बाए तरफ दक्षिण पश्चिम मुडकर रूपचन्द बाग की सीमा के सहारे सहारे चलते हुए मानसी बिहार श्याम बिहार को शामिल कर सीधे सीधे काल्पनिक रेखा के सहारे सहारे चलते हुए ढाणी रावता वाली को बाए हाथ छोड़ते हुए बाए तरफ उत्तर दिशा मुडकर बूचाहेडा की सीमा को दाए तरफ शामिल करते हुए बाए तरफ उत्तर मुडकर रूपनगर के रास्ते रूपनगर को बाए तरफ छोड़ते हुए हजारी लाल यादव वकील के प्लाट को दाए तरफ की आबादी को शामिल कर बाए तरफ पूर्व दिशा में मुडकर डावला रोड सीधे सीधे चलते हुए एन एच 08 पर नाई की दुकान को सम्मिलित कर बाए तरफ दक्षिण दिशा मुडकर बाए तरफ की समस्त आबादी बीडीएम चिकित्सालय तक। | 1108 |
| 14 | 14 | 14 | बीडीएम चिकित्सालय के उत्तरी पूर्वी कोने से बाए तरफ दक्षिण चलते हुए धर्मशाला के पूर्वी दक्षिणी कोने पर पहुंचकर बाए तरफ पश्चिम मुडकर सीधे सीधे चलते हुए श्याम मंदिर को दाए तरफ शामिल करते हुए टेकाराम के मकान को शामिल कर बाए तरफ उत्तर दिशा मुडकर मेडता की ढाणी को बाए तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ उत्तर दिशा सीधे सीधे चलते हुए महिला यादव छात्रावास व रूपचन्द का बाग भगतो की ढाणी को शामिल करते हुए बाए तरफ पूर्व मुडकर बीडीएम चिकित्सालय की दीवार सहारे सहारे चलते हुए बीडीएम चिकित्सालय के उत्तरी पूर्वी कोने तक समस्त आबादी क्षेत्र। | 1190 |
| 15 | 15 | 15 | हनुमान शेखावत के मकान से बाए तरफ पश्चिम सुन्दरपुरा रोड चलते हुए नगर पालिका सीमा दाए तरफ की आबादी नई कौलौनियां ढाणी रावतवाली को दाएतरफ | 1227 |

| | | | | |
|----|----|----|--|------|
| | | | की समस्त आबादी को शामिल करते हुए बाए तरफ उत्तरदिशा नगर पालिका सीमा के सहारे सहारे बाए तरफ उत्तरदिशा की तरफ चलते हुए मानसीबिहार श्यामबिहार यादव महिला छात्रावास को बाए तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ दक्षिण मुड़कर ढाणी मेडतावाली को दाए तरफ शामिल करते हुए सीधे चलकर टेकाराम के मकान को बाए तरफ छोड़ते हुए सडक श्याम मंदिर बाए तरफ पूर्व दिशा में मुड़कर सडक पर सीधे चलते हुए रामभरण शर्मा के मकान को दाए तरफ शामिल कर बाए तरफ दक्षिण मुड़कर सीधे चलते हुए सरकारी स्कूल को दाए तरफ शामिल कर बाए तरफ पूर्व मुड़कर सीधे सीधे चलते हुए मकान त्रिलोक शर्मा को बाए तरफ छोड़ते हुए एन एच 08 पर पहुंचकर बाए तरफ दक्षिण मुड़कर दाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए सीधे सीधे चलते हुए मकान हनुमान शेखावत तक। | |
| 16 | 16 | 16 | एन एच 08 शिवमंदिर से बाए तरफ पूर्व दिशा में चलते हुए डा. भगतसिंह यादव के मकान को दाए तरफ शामिल करते हुए बाए तरफ उत्तर मुड़कर सीधे चलते हुए बाए तरफ पूर्व घूमते हुए सीधे चलते हुए रामकुमार यादव के मकान को दाए तरफ शामिल करते हुए हनुमान शरण मार्ग पर पहुंचकर बाए तरफ दक्षिण मुड़कर सीधे चलते हुए शक्तिबिहार कार्यालय वनविभाग कार्यालय परिवहन विभाग आर्य कौलौनी को दाए तरफ शामिल करते हुए पूतली तिराहा पर पहुंचकर बाए तरफ उत्तर मुड़कर सीधे चलते हुए मकान त्रिलोक शर्मा के पास पहुंचकर दाए तरफ की आबादी को शामिल करते हुए बाए तरफ पश्चिम मुड़कर सीधे चलते हुए सरकारी स्कूल को बाए तरफ छोड़ते हुए उत्तर दिशा में सीधे चलकर मकान प्रहलाद शर्मा को दाए तरफ शामिल कर सडक श्याम मंदिर पहुंचकर बाए तरफ पूर्व में मुड़कर सीधे चलते हुए अमरसिंह राव के मकान को दाए तरफ शामिल कर बाए तरफ दक्षिण मुड़कर सीधे चलते हुए दाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते शिव मंदिर तक की समस्त आबादी क्षेत्र। | 1249 |
| 17 | 17 | 17 | सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एनएच-8 से बाए तरफ दक्षिण दिशा एनएच-8 के सहारे-सहारे सीधे चलकर पूर्व दिशा में रामचन्द्र के प्लाट पहुंचकर सीधे चलते हुए दायीं तरफ की | 1219 |

| | | | | |
|----|----|----|---|------|
| | | | आबादी छोड़ते हुए रामकुमार यादव के मकान तक हनुमान शरण मार्ग पहुंचकर बाए तरफ उत्तर दिशा की तरफ सीधे चलते हुए एडीजे कोर्ट पंचायत समिति कार्यालय के मध्य सीमा पहुंचकर पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए जोगीयो के शमषान को छोड़ते हुए बाएं तरफ की आबादी को शामिल करते हुए जलदाय विभाग रास्ते पर पहुंचकर बाए तरफ पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए मधुकर गढ कालोनी को बाए तरफ शामिल करते सुपर स्पेशलीटी अस्पताल तक समस्त आबादी। | |
| 18 | 18 | 18 | एनएच-8 कालू हलवाई की दूकान से पंडित हरदयाल मार्ग पर पूर्व दिशा सीधे चलते हुए हनुमान सैनी बर्तन वाले की दूकान को शामिल कर बाए तरफ दक्षिण मुड़कर रामकिषोर शर्मा की बगीची बाए तरफ शामिल करते हुए बाए तरफ पूर्व दिशा मुड़ते हुए कांसली वाले की हवेली के पास पहुंचकर सीधे सीधे चलकर बाए तरफ दक्षिण दिशा मुड़कर हनुमान शरण मार्ग पर चलते हुए बाए तरफ पश्चिम दिशा एडीजे कोर्ट पंचायत समिति कार्यालय के मध्य चलते हुए जोगीयो के शमषान को शामिल करते हुए उधम सिंह यादव के मकान को छोड़कर जलदाय विभाग रास्ते पर पहुंचकर पश्चिम दिशा चलते हुए प्रदीप गार्डन संजीवनी अस्पताल की बायीं तरफ की आबादी को छोड़ते हुए एनएच-8 पहुंचकर प्रीसीपल क्वार्टर से बाए तरफ उत्तर दिशा मुड़कर एनएच-8 से सीधे चलते हुए एलबीएस कालेज को शामिल करते हुए कालू सैनी हलवाई की दूकान तक पहुंचकर दायीं तरफ की समस्त आबादी। | 1251 |
| 19 | 19 | 19 | दुर्गा मेडीकल स्टोर से बाए तरफ पूर्व दिशा में चलकर रावत सिंह के मकान को बाए तरफ छोड़ते हुए यहां से उत्तर मुड़कर पुरानी सव्जी मण्डी बाए तरफ पूर्व दिशा में सीधे चलते हुए पुजारी की दुकान को बाए तरफ छोड़ते हुए यहां से बाए तरफ उत्तर दिशा में चलकर सेडूराम मोची की दुकान को दाए तरफ शामिल करते हुए यहां से बाए तरफ पूर्व दिशा में मुड़कर सीधे चलते हुए रबडी वाले की दुकान को शामिल करते हुए यहां से बाए तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर सीधे चलते हुए आजाद चैक पहुंचकर बाए तरफ पश्चिम दिशा में मुड़कर सीधे चलते रसायन शाला को दाईं तरफ शामिल कर बाए तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर सीधे चलते हुए नरेन्द्र पटवारी के मकान को | 1257 |

| | | | | |
|----|----|----|---|------|
| | | | शामिल करते हुए बाए तरफ पश्चिम दिशा में मुडकर सीधे चलकर पुरानी चक्की मैथली शरण को दाए तरफ शामिल करते हुए उत्तर दिशा में चलकर अमरनाथ गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए बाए तरफ पश्चिम दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए फूलचन्द सैनी (फोटोग्राफर) की दुकान को दाए तरफ शामिल करते हुए दुर्गा मेडीकल स्टोर तक की दाए तरफ समस्त आवादी को शामिल करते हुए सीमा समाप्त। | |
| 20 | 20 | 20 | ओमप्रकाश बंसल घनश्याम चाय वाले खोखे को वाए ओर शामिल करते हुए उत्तर दिशा चलकर बायी ओर की आवादी को शामिल करते हुए अजयराय के मकान को शामिल कर पश्चिम दिशा चलते हुए कृष्णा टाकीज को वाए तरफ शामिल करते हुए यहां से वाई तरफ उत्तर दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए कल्लू राम सैनी के मकान को दाए तरफ छोड़ते हुए पश्चिम दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए बजरंग रेडियों वालो के मकान व राधेश्याम पंजावी के मकान को वाई तरफ शामिल करते हुए यहां से वाई तरफ उत्तर दिशा मुडकर अग्रसेन भवन को वाई तरफ शामिल करते हुए सीधे चलकर हरीराम बंसल के मकान को वाए तरफ शामिल करते हुए यहां से वाई तरफ उत्तर दिशा मुडकर सीधे चलते हुए प्रधान जी की कोठी को वाए तरफ शामिल करते हुए यहां से वाई तरफ पूर्व दिशा में मुडकर सीधे चलकर की वाई तरफ की समस्त आवादी को शामिल करते हुए ओमप्रकाश बंसल घनश्याम चाय वाले खोखे तक सीमा समाप्त। | 1340 |
| 21 | 21 | 21 | यादव मिष्ठान भण्डार से वतरफ उत्तर दिशा चलते हुए दामोदर सेठ के मकान व दुकान तक पहुंचकर दायी तरफ की आवादी को शामिल कर यहां से पूर्व दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए धूडमल सैनी के मकान से वतरफ दक्षिण दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए सुरेश सोनी के मकान को बायी तरफ छोड़ते हुए पीथावाली रोड पर पहुंचकर वतरफ दक्षिण दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए देव करण कम्पाउन्डर के मकान को दाई तरफ शामिल करते हुए सीधे चलकर प्रधान जी की कोठी को बाए तरफ छोड़कर यहां से बाए तरफ मुडकर पश्चिम दिशा में मुडकर दाए तरफ की समस्त आवादी को शामिल करते हुए वापस यादव मिष्ठान भण्डार पर सीमा समाप्त। | 1277 |

| | | | | |
|----|----|----|--|------|
| 22 | 22 | 22 | <p>लेखूराम खाती के मकान से वतरफ दक्षिण दिशा में चलते हुए कल्लू सैनी के मकान को दाए तरफ शामिल कर यहां से बाए तरफ पश्चिम दिशा में मुडकर वस्ती फकीरान को शामिल करते हुए सीधे चलकर हरीराम बसंल के मकान को बाए तरफ छोड़ते हुए यहां से वतरफ दक्षिण दिशा में मुडकर चलते हुए बाए तरफ पश्चिम दिशा में मुडकर सीधे चलकर वतरफ उत्तर दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए दाए तरफ की समस्त आवादी को शामिल करते हुए सुरेश सौनी के मकान से कृष्णा टाकीज रोड पर पहुंचकर किरोडी सेठ के मकान व दुकान को दाए तरफ शामिल करते हुए यहां से बाए तरफ पश्चिम दिशा में मुडकर चलते हुए सुरेश गिरदावर का काम्पलैक्स व गोभी वाले खेत को दाए तरफ शामिल करके यहां से वतरफ उत्तर दिशा में मुडकर एन एच 08 सीधे चलकर विसु सेठ की दुकानात को दाए तरफ शामिल करते हुए यहां से बाए तरफ पूर्व दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए गोगा वावा मंदिर जयसिंह शेखावत की दुकानात को दाए तरफ शामिल कर यहां से वतरफ दक्षिण दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए विजली बोर्ड कार्यालय वहादुर गाजी व दलीप सिंह पार्क को दाए तरफ शामिल करते हुए यहां से वतरफ पश्चिम दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए दाए तरफ की समस्त आवादी को शामिल करते हुए वापस लेखूराम खाती के मकान पर सीमा समाप्त।</p> | 1267 |
| 23 | 23 | 23 | <p>वनवारी माथुर के मकान एवं दुकानो से बाए तरफ चलते हुए सीधे पूर्व दिशा में चलते हुए शनि पान बाला पूजारियों के मकान व दुकान को बाए तरफ शामिल करते हुए यहां से वतरफ उत्तर दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए सेडूराम मोची की दुकान को दायी तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ पूर्व दिशा में मुडकर कटला रोड पर सीधे चलते हुए गूदडी खोसो के मकानातो को एवं वैद्य वालावक्ष के मकान को बाए तरफ शामिल करते हुए यहां से बाए तरफ उत्तर दिशा में चलते हुए जनाना चिकित्सालय सत्यदेव शर्मा पत्रकार के मकान को बायी तरफ शामिल करते हुए वानसूर रोड पहुंचकर बाए तरफ पश्चिम दिशा मुडकर पूर्वा सिंनेमा को हजारी होटल को बायी तरफ शामिल करते हुए बाए तरफ दक्षिण दिशा में मुडकर सीधे चलते हुए मांवडा वाले सोनी के मकान को बाए तरफ शामिल कर यहां बाए</p> | 1296 |

| | | | | |
|----|----|----|---|------|
| | | | तरफ पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए सीधे चलकर शेखागढ अजय आरा मिल को बायीं तरफ शामिल करते हुए सीधे चल कर वापस वनवारी माथुर के मकान दुकानो की वाई तरफ की आवादी को शामिल करते हुए सीमा समाप्त। | |
| 24 | 24 | 24 | बानसूर रोड तूरका वाली ढाणी को शामिल करते हुए नगर पालिका की सीमा के सहारे चलते हुए टापरी रोड पर पहुंचकर वतरफ पश्चिम मुड़कर सीधे चलते हुए बाए तरफ की आवादी व कांवरो के मोहल्ले को बाए तरफ शामिल कर बानसूर रोड पर पहुंचकर यहां से पूर्व दिशा में मुड़कर बाए तरफ की आवादी को शामिल करते हुए सीधे सीधे चलकर बानसूर रोड तुर्का वाली ढाणी तक की समस्त आवादी सीमा समाप्त। | 1299 |
| 25 | 25 | 25 | छोटू मिस्त्री के प्लाट से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए ढाणी नरबदा वाली को सम्मलित करते हुए अम्बेडकर सामुदायिक भवन को छोडकर उतर दिशा की तरफ सीधे चलते हुए सैनी धर्मशाला पहुंचकर ढाणी दासू वाली सडक पर पूर्व दिशा नगरपालिका सीमा तक चलते हुए दायीं तरफ की आबादी ढाणी डासू वाली को सम्मलित कर दक्षिण दिशा की तरफ नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए नया कुआं पुराना कुआं ढाणी काजीवाला को सम्मलित कर बाला का नांगल रोड पहुंचकर प'पम दिशा नगरपालिका की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए ढाणी कानूनगा वाली को सम्मलित करते हुए पूर्व दिशा की तरफ चलकर खटीकान बस्ती को छोडते हुए बाला का नांगल रोड पहुंचकर उतर दिशा चलते हुए मंगल सैनी की चक्की को सम्मलित करते हुए छोटू मिस्त्री के प्लाट तक समस्त दायीं तरफ की आबादी। | 1218 |
| 26 | 26 | 26 | बाला वाला कुआं से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए सूदो के मकानो को शामिल करते हुए दायीं तरफ की आबादी सम्मलित कर सीधे-सीधे चलकर पीपल के पेड के पास पहुंचकर नगरपालिका की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए दक्षिण की तरफ नगर पालिका की सीमा के सहारे सहारे चलकर पश्चिम दिशा की तरफ चलकर ढाणी डासूवाली को छोडते हुए सैनी धर्मशाला पहुंचकर दायीं तरफ बावडी को सम्मलित करते हुए सीधे-सीधे चलकर बाला वाला कुआं की दायीं तरफ की समस्त आबादी। | 1309 |
| 27 | 27 | 27 | बाला वाला कुआं से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए बायीं | 1242 |

| | | | | |
|----|----|----|--|------|
| | | | तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुए पीपल के पेड के पास पहुंचकर रूंगा टैण्ट वाले को बायीं तरफ शामिल करते हुए पूर्व दिशा चलकर उत्तर दिशा की मुड़कर नगर पालिका सीमा के सहारे सहारे चलते हुए यहां से उतर दिशा चलकर आईटीआई को सम्मिलित कर पश्चिम दिशा की तरफ चलकर खातियों के चैक पहुंचकर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए बाएं तरफ की समस्त आबादी सम्मिलित करते हुए बाला वाले कुएं तक। | |
| 28 | 28 | 28 | नगरपालिका चुंगी नाका बानसूर रोड से नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण की तरफ चलते हुए पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए आईटीआई रोड पहुंचकर प्रहलाद वैद्यजी के मकान को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए भूतेश्वर मंदिर को शामिल करते यहां से पूर्व की तरफ चलते हुए भूतेश्वर ढाणी को शामिल करते हुए भूतेश्वर रोड पहुंचकर यहां से वतरफ उत्तर चल कर बानसूर रोड पर पहुंचकर पप्पू वाल्मिक के मकान को छोड़ते हुए दाएं तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए वानसूर रोड से पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर चुंगी नाके पर जाकर सीमा समाप्त। | 1287 |
| 29 | 29 | 29 | मुरली गुर्जर के मकान से बानसूर रोड पूर्व दिशा चलते हुए पप्पू वाल्मिक के मकान को शामिल कर वहां से दक्षिण दिशा में चलते हुए मंदिर भूतेश्वर व ढाणी भूतेश्वर को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर चलते हुए दायीं तरफ की आबादी को शामिल करते हुए कुम्हारो के रास्ते बानसूर रोड पर पहुंचकर पूर्व दिशा की तरफ पप्पू वाल्मिक के मकान तक सीमा समाप्त। | 1213 |
| 30 | 30 | 30 | सागरमल की धर्मशाला से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए खैरू का बाग इंगा वाला हनुमान मन्दिर को सम्मिलित करते हुए बानसूर रोड पहुंचकर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए मुरली गुर्जर के मकान को सम्मिलित करते हुए दक्षिण की तरफ चलकर भूतेश्वर मंदिर को छोड़ते हुए प्रहलाद वैद्य जी की तरफ आईटीआई रोड पहुंचकर पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा की तरफ दायीं तरफ की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुए सागरमल की धर्मशाला तक दायीं तरफ की समस्त आबादी। | 1250 |
| 31 | 31 | 31 | बलवीर सोनी की दूकान से दक्षिण की तरफ चलते हुए बाएं तरफ की आबादी को शामिल कर वैक्टेस्वर मंदिर को | 1284 |

| | | | | |
|----|----|----|---|------|
| | | | शामिल करते हुए यहां से भोमियां मन्दिर से उत्तर दिशा की तरफ बीसू सेठ की हवेली के सामने पश्चिम दिशा रामनिवास शर्मा के मकान को सम्मलित कर पश्चिम दिशा में सीधे-सीधे चलते हुए सतीष चैकडायत के मकान को शामिलकर पश्चिम दिशा चलकर बाएं तरफ की आबादी सम्मलित करते बलवीर सोनी की दुकान तक का समस्त भाग। | |
| 32 | 32 | 32 | दीक्षित के मकान को शामिल कर जगन्नाथ मंदिर छोटा बाजार को दाए ओर छोड़कर पश्चिम दिशा चलते हुए चमेली बुआ के मकान को बाए ओर शामिल कर दक्षिण दिशा की तरफ सीधे चलते हुए मुगा हलवाई के मकान को छोड़ते हुए सत्यदान मास्टर के मकान तक पहुंचकर बाएं तरफ की आबादी को सम्मलित करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए मातादीन मीणा के नोहरे को सम्मलित कर ईमली रोड (नारायणपुर स्टैण्ड) के सहारे-सहारे पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए ढाणी बाडावाली पहुंचकर उतर दिशा की तरफ चलकर दीक्षित के मकान को सम्मलित करते हुए बाएं तरफ की समस्त आबादी तक। | 1213 |
| 33 | 33 | 33 | श्रीमती बीरमा देवी मीणा (पंचायत समिति के सामने) के मकान से उतर दिशा चलते हुए पुराना राजपूताना कॅलेज राहुल स्वामी के मकान को (पाला वाला कुआं) सम्मलित कर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए घीसा मास्टर के मकान को छोड़ते हुए रेवाडी बर्तन वाला की तरफ मुड़कर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए पटवारी के मकान को सम्मलित करते हुए कैलाष मास्टरजी के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की तरफ लाल हवेली के पास पहुंचकर पूर्व दिशा चलते हुए हेमराज के मकान से दक्षिण की तरफ मूंगा हलवाई के मकान को सम्मलित करते हुए पश्चिम दिशा मुड़कर सत्यदान मास्टर के मकान को सम्मलित करते हुए सीधे-सीधे चलते हुए मातादीन मीणा के मकान को सम्मलित करते हुए ईमली रोड के सहारे-सहारे दायीं तरफ की समस्त आबादी को सम्मलित करते हुए श्रीमती बीरमा मीणा के मकान तक। | 1214 |
| 34 | 34 | 34 | घनष्याम पटवारी के मकान से उत्तर दिशा में चलते हुए दाएं तरफ की आबादी को शामिल करते हुए माथुर की दुकान पहुंचकर यहां से पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर माता वाली गली को शामिल करते हुए नरेन्द्र पटवारी के मकान | 1308 |

| | | | | |
|----|----|----|---|------|
| | | | को छोड़कर उत्तर दिशा चलकर सुभाष माथुर की दुकान शामिल कर आजाद चौक की तरफ चलते हुए नृसिंह मंदिर को शामिल कर यहां से दक्षिण की तरफ चलते हुए छोटा से मन्ना सैनी की दुकान को शामिल कर यहां से पश्चिम दिशा चलते हुए दुर्गा प्रसाद वकील के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़कर सीधे चलते हुए मंगल राम शर्मा के मकान पर पहुंचकर यहां से पश्चिम दिशा में मुड़कर लाल हवेली को छोड़कर मामराज शर्मा कैलाष मास्टर के मकान को शामिल करते हुए सीधे सीधे चल कर रामबाबू शर्मा रेवाडी वाले पण्डित को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चलकर जोगियो की गली की तरफ चल कर जोगियों को शामिल करते हुए वापस घनश्याम पटवारी की मकान पर पहुंचकर सीमा समाप्त | |
| 35 | 35 | 35 | हनुमान शरण मार्ग बाए तरफ पूर्व दिशा बूचाहेडा की सरहद नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए बाएं तरफ की आबादी को शामिल करते हुए म्याउ वाले रास्ते पर बाए तरफ पूर्व दिशा चलकर खटीकान बस्ती को शामिल करते हुए दायीं तरफ की आबादी को छोड़ते हुए बसई रोड पर पहुंचकर बाए तरफ उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए मंगल सैनी की चक्की के सामने बाए तरफ पश्चिम दिशा की तरफ खेतों में काल्पनिक रेखा मानते हुए गोविन्द बिहार मध्य रोड पहुंचकर चलते हुए न्यायिक अधिकारियों के आवास को शामिल करते हुए बाए तरफ उत्तर दिशा मुड़कर अतिरिक्त पुलिस कार्यालय को सम्मिलित कर दुर्गा माता मन्दिर छोड़कर हनुमान शरण मार्ग के सहारे-सहारे चलते हुए टीवी टावर बाए तरफ की आबादी को शामिल करते हुए प्रहलाद सैनी दुकान तक की समस्त आबादी। | 1299 |
| 36 | 36 | 36 | नन्दा सैनी चाय वाले की दूकान से पूर्व दिशा ईमली रोड पर सीधे सीधे चलते हुए नागाजी मन्दिर को सम्मिलित करते हुए बाला का नांगल रोड के सहारे बाए तरफ दक्षिण दिशा चलते हुए अम्बेडकर सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा मुड़कर हीरालाल भूषण के मकान तक पहुंचकर म्याउ वाली ढाणी रास्ते पर चलकर दाएं हाथ की आबादी को सम्मिलित करते हुए सीधे पश्चिम दिशा चलकर म्याउ वाले रास्ते पर पहुंचकर बाए तरफ दक्षिण दिशा चलते हुए गोविन्द बिहार के मध्य सड़क पर चलते | 1303 |

| | | | | |
|----|----|----|--|------|
| | | | हुए दाएं हाथ की आबादी दुर्गामाता मन्दिर को सम्मिलित करते हुए हनुमान शरण मार्ग के सहारे-सहारे बाए तरफ उत्तर दिशा चलते हुए अम्बेडकर कालोनी को दाए तरफ सम्मिलित करते हुए नन्दा चाय वाले की दूकान तक। | |
| 37 | 37 | 37 | दुर्गा धर्मकांटा बानसूर रोड से पश्चिम दिशा चलकर धन्षी की चक्की पहुंचकर बायीं तरफ आबादी शामिल कर दुर्गा प्रसाद शर्मा की दुकान को शामिल कर दक्षिण मुड़कर सोनी के मकान को शामिल कर पूर्व दिशा मुड़कर जगदीष शर्मा नाकेदार के मकान को शामिलकर दक्षिण दिशा चलकर रामनिवास जोषी के मकान को शामिल कर बाएं तरफ आबादी शामिल कर सीधे चलकर मीणाओं के चैक से दुर्गा धर्मकांटा तक बायीं तरफ समस्त आबादी। | 1276 |
| 38 | 38 | 38 | नई सव्जी मण्डी से एनएच 08 के दक्षिण पश्चिमी कोने से बाए तरफ उत्तर चलते हुए नगर पालिका सीमा के पास पहुंचकर बाए तरफ पूर्वदिशा में मुड़कर सीधे चलते हुए अनाज मण्डी व मोरीजा वाले शमषान को दाए तरफ शामिल करते हुए दयावती बिहार रामबिहार गंगा कालौनी को दाए तरफ शामिल करते हुए सीधे गोषाला एवं स्वामीयो की बगीची को शामिल कर पर बाए तरफ उत्तर दिशा में सीधे चलते हुए बाए तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर धन्सीराम सैनी की चक्की से बाए तरफ छोड़ते हुए सीधे चलते हुए डा. गुरुदीप के मकान को शामिल करते हुए बाए तरफ उत्तर मुड़ कर सीधे चलते हुए दुर्गा प्रसाद शर्मा की दुकान को बाए तरफ छोड़ते हुए बाए तरफ उत्तर मुड़कर सीधे चलते हुए बानसूर रोड पहुंचकर डा. मोती स्वामी के मकान को शामिल करते हुए बाए तरफ पश्चिम मुड़कर सीधे चलते हुए दाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए नई सव्जी मण्डी के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक सीमा समाप्त। | 1287 |
| 39 | 39 | 39 | मातादीन सौनी के मकान से बाए तरफ पूर्व दिशा चलते हुए मकान बालासिया को दाए तरफ शामिल कर बाए तरफ दक्षिण मुड़कर मकान रामनिवास जोषी को बाए तरफ छोड़ते हुए पूर्व दिशा में मुड़कर मकान बालासिया सुरेश मोठूका राजेन्द्रशर्मा सोहन लाल शर्मा व मस्जिद को दाए तरफ शामिल करते हुए मकान रामनिवास को बाए तरफ छोड़ते हुए वतरफ पूर्व मुड़ते हुए डा. ओमसिंह मीणा के मकान को दाए तरफ शामिल करते हुए सीधे सीधे | 1255 |

| | | | | |
|----|----|----|--|------|
| | | | <p>चलकर कबूल मीणा के मकान के पास पहुंचकर बाए तरफ दक्षिण दिशा मुंडते हुए सीधे सीधे चलते हुए सागरमल की धर्मशाला को बाए तरफ छोड़ते हुए आई टी आई रोड पहुंचकर यहां से पॉपम मुड़कर सीधे चलते हुए डा. गोयल के मकान को दाए तरफ शामिल करते हुए मंदिर केशव जी को बाए तरफ छोड़ते हुए उत्तर मुड़कर सीधे सीधे चलते हुए मकान हजारी लाल शर्मा को शामिल करते हुए सौनी मार्केट रास्ता पहुंचकर पश्चिम दिशा मुड़कर अनाज कटला को दाए तरफ शामिलकर लम्वा बाजार पहुंचकर यहां से उत्तर मुड़कर यहां से सीधे सीधे चलते हुए दुकान हुकम सौनी को दाए तरफ शामिल कर पूर्व मुड़कर सीधे चलते हुए दाए तरफ की समस्त आबादी को शामिल कर मकान मातादीन सौनी तक सीमा समाप्त।</p> | |
| 40 | 40 | 40 | <p>खातियों के चैक के शिवालय से बाए तरफ दक्षिण चलते हुए हैण्डपम्प शिवालय पर पहुंचकर मकान रामनिवास शर्मा को बाए तरफ छोड़ते हुए पश्चिम मुड़कर सीधे सीधे चलकर सतीस चैकडायत के मकान को बाए तरफ छोड़ते हुए वहां से मुड़कर सीधे सीधे चलकर दुकान बलवीर सौनी को बाए तरफ छोड़ते हुए आजाद चैक पहुंचकर वहां से उत्तर मुड़कर लम्वा बाजार होते हुए सीधे चलकर नन्दा चाय वाले की दुकान तक पहुंचकर बाए तरफ पूर्व दिशा में मुड़कर सौनी मार्केट होते हुए मकान मातादीन सौनी के मकान को दाए तरफ शामिल कर दक्षिण मुड़कर सीधे सीधे चलकर मंदिर केषव जी की दाए तरफ शामिलकर सीधे चलते हुए खातियों के चैक शिवालय पर दाए तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए सीमा समाप्त।</p> | 1297 |

अधिषाशी अधिकारी
नगरपालिका कोटपूतली

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।